


स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना

प्रतिवेदन

माह जनवरी - मार्च 2020



माह जनवरी 2020 - स्वामी विवेकानन्द जन्म माह के अंतर्गत वार्षिक कैलेंडर की प्रस्तावित गतिविधि के अनुसार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को उन्नत बनाने हेतु एवं उन्हें स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्रकोष्ठ द्वारा “स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा युवा” विषय पर व्याख्यान का आयोजन दिनांक 06 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया | विद्यार्थियों को स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करने एवं स्व-रोजगार इकाई की स्थापना संचालन निर्माण प्रक्रिया उत्पादन एवं वितरण तथा विपणन के मार्गदर्शन एवं जानकारी हेतु स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की छात्राओं हेतु औद्योगिक भ्रमण का आयोजन दिनांक 30 जनवरी 2020 को किया गया | छात्राओं को भ्रमण हेतु साँची दुग्ध संघ एवं ओ.के. प्रोडक्शन राईस मिल का भ्रमण कराया गया | भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों ने दोनों औद्योगिक इकाइयों को सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हुईं |



माह फरवरी 2020 - विद्यार्थियों को रोजगार की दिशा में उन्मुख करने आर्थिक आत्मनिर्भरता, कौशल विकास प्लेसमेंट, लघु एवं कुटीर उद्योग उत्पादन, विभिन्न व्यवसाय की जानकारी हेतु बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा रोजगारोन्मुखी संभाग स्तरीय कैरियर मेले का दो दिवसीय आयोजन दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2020 को शासकीय मोहन लाल हरगोविंददास गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर तथा शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन स्थल शासकीय मोहन लाल हरगोविंददास गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया ; इसमें संभाग के सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने लाभ लिया | इस कैरियर मेले में स्टॉल एवं व्याख्यान प्रश्नमंच एवं उद्बोधन के माध्यम से कैरियर अवसर एवं कौशल विकास के आयामों को विद्यार्थियों ने जाना |



मॉडल कैरियर सेंटर ने प्लेसमेंट हेतु विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया, जिन्होंने न्यूनतम योग्यता से लेकर उच्चतम योग्यता

तक सभी प्रकार के कैरियर की उपलब्धता सुलभ कराई | कैरियर मेले का शुभारम्भ दिनांक 15 फरवरी 2020 को माननीय कैबिनेट मंत्री उर्जा विभाग एवं प्रभारी मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह जी, सामाजिक न्याय मंत्री श्री लखन घंघोरिया जी, जनभागीदारी अध्यक्ष एवं विधायक श्री विनय सक्सेना जी, श्री राज्यवर्धन सिंह जी विधायक, श्री भारत यादव जी कलेक्टर जबलपुर मेला संरक्षक, श्री अमित सिंह जी एस.पी. जबलपुर, डॉ. लीला भलावी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य द्वारा किया गया | मेले का समापन डॉ.आर.के. अरुसिया डी.आई.जी. पुलिस महिला विंग जबलपुर तथा डॉ. कमलेश मिश्र कुलसचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की उपस्थिति में संपन्न हुआ | संभागीय मेले का संयोजन डॉ. अरुण शुक्ल संभागीय नोडल अधिकारी स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना जबलपुर एवं सह संयोजन डॉ. आभा तिवारी प्रकोष्ठ प्रभारी शासकीय मोहन लाल हरगोविंददास गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर ने किया | मेले में संभाग के महाविद्यालयों के सम्माननीय प्राचार्यगण, प्राध्यापक एवं विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की |



अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन माह जनवरी एवं फरवरी में किया गया, यह प्रशिक्षण “मशरूम उत्पादन” पर केन्द्रित था ।
विद्यार्थियों ने उत्पादन तकनीक एवं विपणन से सम्बंधित जानकारी को विषय विशेषज्ञों से जाना । नियमित कक्षाओं के पश्चात प्रतिदिन यह कार्यक्रम सुचारु रूप से छात्राओं में कौशल विकास एवं आर्थिक संबलता हेतु संचालित हुआ । मशरूम कि पोषण गुणवत्ता एवं आहारीय मूलकता तथा उसके विविध प्रकारों से छात्राएं लाभान्वित हुईं ।
कार्यक्रम का शुभारम्भ एवं समापन सम्माननीय प्राचार्य डॉ. लीला भलावी मैडम की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ । प्रशिक्षण की समाप्ति पर विद्यार्थियों को प्रमाण पात्र दिए गए ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राचार्य महोदया जी के मार्गदर्शन में प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. आभा तिवारी, प्रशिक्षण समन्यवक डॉ. कृष्णा पटेरिया एवं डॉ. प्रियंका राज द्वारा संपादित किया गया ।

